



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 27 पटना, बुधवार, 14 आषाढ़ 1945 (श10)
5 जुलाई 2023 (ई0)

विषय-सूची	पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1— नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	भाग-9—विज्ञापन
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-4—बिहार अधिनियम	---	5-7
	---	पूरक
	---	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

16 जून 2023

सं० 04/वी०मु०-20-118/14-3120/एम०--श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक के विरुद्ध रोहतास जिलान्तर्गत मौजा-धौडाढ़ क्षेत्र के चार एकड़ के अतिरिक्त पर्यावरण एवं वन विभाग तथा जल संसाधन विभाग की भूमि में अवैध पत्थर उत्खनन की मात्रा का आकलन एवं गणना नहीं करने, करबंदिया पहाड़ी के गिजबाही, गायघाट एवं फाजीलपुर में वृहद पैमाने पर पत्थर के अवैध उत्खनन की जाँच एवं गणना नहीं करने, बासा एवं अमरा क्षेत्र में शेष दस खनन पट्टेधारियों द्वारा अवैध उत्खनन की विधि-सम्मत कार्रवाई नहीं करने तथा अवैध रूप से बिना अनुज्ञप्ति के लीजधारियों द्वारा पत्थर के भंडार का निरीक्षण एवं आकलन कर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने, प्रधान सचिव के निरीक्षण एवं जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई के लिए तत्कालीन उप निदेशक, पटना अंचल श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू को दी गयी विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने एवं सरकार के आश्वासन का अनुपालन नहीं करने एवं राजस्व में हानि के बावत समीक्षोपरांत आरोप-पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना ज्ञाप संख्या-1803 दिनांक 28.04.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक, पटना अंचल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक 178 दिनांक 06.04.2015 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री साहू के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। जाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष से असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए आरोपों के लिए श्री साहू से विभागीय पत्रांक 1932 दिनांक 05.06.2015 से कारण पृच्छा की मांग की गई। श्री साहू द्वारा पत्रांक 129/एम० दिनांक 16.06.2015 से समर्पित कारण पृच्छा के सम्यक विचारोपरांत उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी" जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, कि शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया। शास्ति अधिरोपित प्रस्ताव पर पत्रांक 2905 दिनांक 28.07.2015 से बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1677 दिनांक 29.09.2015 से परामर्श प्राप्त हुई, जिसमें विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गई। विभागीय अधिसूचना संख्या-191 दिनांक 20.01.2016 से श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(xi) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी" जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-191 दिनांक 20.01.2016 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.-19270/2014 (लक्ष्मी प्रसाद साहू बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No.-19270/2014 में दिनांक 13.10.2022 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

"21. Having taken note of the illegal manner in which the Disciplinary Authority has communicated the points of distinction, failed to consider the petitioner's reply and the non-assigning of reasons in support of his conclusion, the Court has no hesitation in holding that, for the reasons noted above, the Order of the Disciplinary Authority dated 20.01.2016 is thus unsustainable and hereby quashed.

22. In view of quashing of the Order of punishment, the communication of rejection of petitioner's review under letter dated 20.04.2016 is also unsustainable in as much as it purports to affirm the illegal conclusions of the Disciplinary Authority. Communication of rejection of petitioner's appeal, without order of the Appellate Authority, if any, is also unsustainable. The remedy of appeal has been rendered futile as there is no order showing consideration of appeal. The respondents cannot be permitted to rely upon letter dated 20.04.2016 to contend that petitioner's appeal has been rejected and, therefore, petitioner is liable for the consequences of the illegal order of the Disciplinary Authority dated 20.01.2016.

23. As a consequence of quashing of the impugned order of punishment and order dated 20.04.2016 bearing memo no. 1575 communicating rejection of petitioner's review, the petitioner is found to be entitled to all consequential benefits. This Court thus directs that consequential benefits be made available to the petitioner along with detailed calculation chart. The entire exercise must be completed by the Authorities within three months from the date of receipt/production of a copy of this Order."

समादेश याचिका संख्या-19270/2014 में दिनांक 13.10.2022 को पारित न्यायादेश के संबंध में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के तहत तकनीकी त्रुटि के आधार पर बर्खास्तगी आदेश को समाप्त किये जाने के कारणों से अनुशासनिक प्राधिकार को नये सिरे से कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दिये जाने हेतु विभाग द्वारा LPA No.-713/2023 दायर किया गया है, जो सम्प्रति न्यायालय में विचाराधीन है। LPA में पारित आदेश के फलाफल के आधार पर विभाग द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

अतः श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर CWJC No.-19270/2014 में दिनांक 13.10.2022 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री लक्ष्मी प्रसाद साहू, तत्कालीन उप निदेशक, दरभंगा (सेवानिवृत्ति तिथि 30.11.2017) को विभागीय अधिसूचना संख्या-191 दिनांक 20.01.2016 से दी गई शास्ति "सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" को निरस्त किया जाता है। बर्खास्तगी तिथि 20.01.2016 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के वेतनादि एवं अन्य परिणामी लाभ यथा-पेंशन, उपादान आदि सशर्त दिये जाने की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश LPA No.-713/2023 में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
धर्मेन्द्र सिंह, सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं
19 जून 2023

सं0 R-503/42/2022-SECTION 14-RDD-RDD-1847520---श्री सोनू कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घनश्यामपुर, दरभंगा सम्प्रति प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर के विरुद्ध अधिसूचित प्रखंड में योगदान नहीं करने एवं अनधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोपों पर आरोप पत्र गठित किया गया।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभाग द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

विभाग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार द्वारा कर्तव्य के प्रति बरती गयी उक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के लिए विभागीय अधिसूचना जापांक-1604000 दिनांक-28.02.2023 द्वारा इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरुद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक-28.04.2023 समर्पित किया गया। इनके उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा के क्रम में कोई ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य या तथ्य नहीं पाया गया जिससे कि पूर्व में पारित आदेश को संशोधित किया जा सके।

अतएव श्री कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

21 जून 2023

सं0 ग्रा0वि0-14(नि0को0)-05/2019-1855012---निगरानी थाना कांड संख्या-009/2019 दिनांक 05.03.2019 के अभियुक्त श्री नील कमल, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहां (मुजफ्फरपुर) के विरुद्ध

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के जापांक-2564/अप0शा0 दिनांक-16.09.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री नील कमल को दिनांक-09.09.2022 को गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया।

अतएव श्री नील कमल को न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 भाग-4 के नियम-9 (2) (क) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-1332207 दिनांक-26.10.2022 द्वारा इन्हें कारा निरोध की तिथि 09.09.2022 से निलम्बित किया गया।

श्री नील कमल द्वारा दिनांक-21.02.2023 को कारा से मुक्त होने के उपरांत दिनांक-22.02.2023 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(i) के आलोक में श्री नील कमल को निलंबन से मुक्त करते हुये दिनांक-22.02.2023 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है। श्री नील कमल मुख्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेंगे।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,

नन्द किशोर साह, संयुक्त सचिव।

निगरानी विभाग
सूचना भवन, पटना

अधिसूचना
28 जून 2023

सं0 विधि पारिश्रमिक-12/14-3448—विभिन्न निगरानी न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गठित विशेष न्यायालयों में निगरानी वादों के संचालनार्थ बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाना है।

2. उक्त साक्षात्कार के आयोजन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या-265 दिनांक 22.01.2021 द्वारा पूर्व में गठित चयन समिति के स्थान पर निम्नवत् चयन समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|-------|--|---|---------|
| (i) | संयुक्त सचिव (विधि), निगरानी विभाग, बिहार, पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) | निदेशक, अभियोजन द्वारा नामित
अभियोजन सेवा के एक वरीय पदाधिकारी | — | सदस्य |
| (iii) | महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा
नामित पुलिस अधीक्षक स्तर के एक पदाधिकारी | — | सदस्य |

3. गृह विभाग (अभियोजन निदेशालय) से प्राप्त पदाधिकारियों की सूची चयन समिति को उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया जाता है कि उपलब्ध कराये गये सूची में अंकित अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के साक्षात्कार के उपरान्त अपनी अनुशंसा निगरानी विभाग को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
मो0 जहाँगीर आलम, उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

No. 775—I, Sunita Devi W/o Anuj Prasad R/o Bata Gunj Digha Ramjeechak Near Bharat gas, Gandhi Gali Dinapore cum Khagaul Patna 800011 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per Aff. No-3351/17-05-23 That my name is written in my son's Kaushal Prasad Secondary Education Examination as Sunita Kushwaha which is wrong my correct name as per Aadhar No 434827988614 is Sunita Devi and from Now I will be known as Sunita Devi for all future Purposes.

Sunita Devi.

No. 776—I, MD. Raziuddin Ahmad, S/O-late MD. Yahya, Residence of H. No.-87, R.No.-7, Haroon Nagar, Sector-2 Po.+Ps.-Phulwarisharif, District-Patna 801505, Bihar do hereby solemnly affirm and declare through Affidavit No.-3807 Dated on 01.06.2023 that my Daughter Shariqa Shafaq have passed 10th & 12th CBSE Board In her Board Educational Document and etc. spelling of my (Father's) Name as RaziUddin Ahmad has wrongly been mentioned in place of MD. Raziuddin Ahmad by mistake. That my real name is MD. Raziuddin Ahmad and I only Known by this name. That in all Educational Document correct father's name is read as MD. Raziuddin Ahmad.

MD. Raziuddin Ahmad.

सं० 777—मैं, जयश्री, पिता—शिव कुमार पंजियार, निवासी—महिला कॉलेज रोड, सुरतगंज, वार्ड नं 23, मधुबनी, (बिहार), 847211 शपथ पत्र सं०—621 दिनांक 6.6.23 द्वारा सूचित करती हूँ कि मेरे सीबीएसई माध्यमिक के सभी कागजातों में मेरा नाम जयश्री दर्ज है जो सही है मेरे आधार सं० 512804275846 में जय श्री कुमारी दर्ज है, जो कि गलत है। भविष्य में सभी कार्य हेतु जयश्री के नाम से जानी जाऊँगी।

जयश्री ।

No. 777—I, Jaishree D/o Shiv Kumar Panjiyar R/o Mahila college road Suratganj ward No 23 , Madhubani (Bihar) 847211 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No 621 dt 6.6.23 that my name is written in my CBSE secondary all documents as Jaishree which is correct but is my Aadhar no. 512804275846 it is mentioned as Jay shri kumari which is wrong that from now I will be known as jaishree for all future purposes.

Jaishree.

सं० 778—मैं, मृणालिनी, पिता मनीष सिन्हा, स्थायी पता: द्वारा मनीष सिन्हा, कच्ची तालाब, नया टोला, सरिस्ताबाद रोड, पटना जीपीओ, पटना, पिन-800001, बिहार की निवासी हूँ। मृणालिनी एवं मृणालिनी प्रिया दोनों एक ही व्यक्ति हैं और मैं मृणालिनी प्रिया के नाम से सभी कार्यों हेतु जानी एवं पहचानी जाऊँगी जो कि शपथ पत्र सं. 970/2023 दिनांक 13.06.2023 के माध्यम से नोटरी पब्लिक, पटना द्वारा सही व सत्यापित है।

मृणालिनी ।

No. 778—I, **Mrinalini Priya** D/o Manish Sinha, Permanent Add: C/o Manish Sinha, Kachchi Talab, Naya Tola, Saristabad Road, GPO, Patna, Pin-800001, Bihar, **Mrinalini** and **Mrinalini Priya** are mine and I will be known as **Mrinalini Priya** for all purposes which is true and verified by the Public Notary, Patna through Affidavit No. 970/2023 dated 13.06.2023.

Mrinalini Priya.

सं० 779—मैं Md. Faiyaz Ahmed Khan पुत्र मिन्नत हुसैन खां निवास-अहिलवारा पो० अहिलवारा, रामनगर थाना-बिरौल, जिला-दरभंगा बिहार-847203 शपथ पत्र सं० 828 ता० 18.05.2023 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पुराने आधार कार्ड में मेरा नाम Faiyaz Ahmad Khan दर्ज है जो गलत है। मेरा सही नाम Md. Faiyaz Ahmed Khan है।

Md. Faiyaz Ahmed Khan.

No. 779—I Md. Faiyaz Ahmed Khan Son of Minnat Hussain Khan, R/O village-Ahilwara, Po- Ahilwara Ramnagar P. S. Biraul, District- Darbhanga Bihar 847203 vide Affidavit No- 828 Date 18.05.23 That as per My old. Aadhar card my name is Faiyaz Ahamad Khan my correct name is md. Faiyaz Ahmed Khan.

Md. Faiyaz Ahmed Khan.

No. 780—I, Pankaj Kumar, S/o Mahendra Prasad, R/o house of Aashish Kumar lane No.-08 S. K. Puri R.P.S. More Baily road, Patna (Bihar) Permanent address Kundla, Mohalla Niche Bazar Vill+P.O+P.S-Rajauli Distt-Nawada. (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No. 485/06-05-23 that due to typographical error my son's name is mentioned in his birth certificate as Vaibhav Kumar which is wrong his correct name is Vaibhav Kamal.

Pankaj Kumar.

सं० 792—मैं, प्रणय कश्यप (Pranay Kashyap) पुत्र-श्री सचिनन्दन ठाकुर एवं कल्पना ठाकुर वर्तमान पता-75/84, ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, राजवंशी नगर, थाना-शास्त्री नगर, पटना बिहार-800023 घोषणा करता हूँ कि मेरे सी. बी. एस. ई. के दसवीं के प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में मेरा नाम Pranay Kahsyap गलत दर्ज है, सही नाम प्रणय कश्यप (Pranay Kashyap) है। शपथ पत्र सं० 109 दिनांक 30.06.2023 के अनुसार।

प्रणय कश्यप।

No. 792—I, PRANAY Kashyap S/o Shri Sachinandan Thakur & Kalpana Thakur Presently Residing at 75/84 Officer's Flat, New Punaichak, Rajbanshi Nagar, P.S.-Shastri Nagar, Patna, Bihar-800023 declare that in my CBSE 10th certificate & marksheet my name is wrongly mentioned as Pranay Kahsyap. My correct name is Pranay Kashyap. Vide Affidavit No. 109 Dated 30.06.2023.

Pranay Kashyap.

No. 794—I, **MOHAMMAD RAFIQUEZZAMAN ANSARI** S/O Mohammad Waizul Haque R/O House No.145, Khazanchi Haat, Purnea-854301, have changed my name to **MUHAMMAD RAFIQ ABUTURAB** vide Affidavit No. 06 dated 22/06/2023. The name printed/written in Marksheet and Certificate of Matriculation, Intermediate, B.Sc. (Hons.), and M.Sc., and Notification and Certificate of Ph.D. is **MOHAMMAD RAFIQUEZZAMAN ANSARI**. The two names Mohammad Rafiquezzaman Ansari and Muhammad Rafiq Abuturab are of one and the same person and I shall hereafter be known and addressed as **MUHAMMAD RAFIQ ABUTURAB** for all future purposes.

MOHAMMAD RAFIQUEZZAMAN ANSARI.

सं0 795—मैं, गौरव कुमार पिता—राजीव कुमार, स्थायी पता—द्वारा राजीव कुमार, कच्ची तालाब, नयाटोला, सरिस्ताबाद रोड, पटना जीपीओ, पटना पिन—800001, बिहार, गौरव और गौरव कुमार दोनों एक ही व्यक्ति हैं और मुझे जाना जाएगा गौरव कुमार के रूप में सभी उद्देश्यों के लिए जो कि सार्वजनिक नोटरी, पटना द्वारा शपथ पत्र संख्या 971/2023 दिनांक 13.06.2023 के माध्यम से सत्य और सत्यापित है।

गौरव कुमार।

No. 795—I, Gaurav Kumar S/o Rajeev Kumar, Parmanent Address C/o- Rajeev Kumar, Kachchi Talab, Naya Tola, Saristabad Road, Patna GPO, Patna, Pin-800001, Bihar, Gaurav and Gaurav Kumar are mine and I will be Known as Gaurav Kumar for all purposes which is true and verified by the Public Notary, Patna through Affidavit No. 971/2023 dated 13-06-2023.

Gaurav Kumar.

No. 796—I, Md. Suhail Akhtar Khan, S/o Md. Jamil Ahmad Khan, R/O Vill- Simaru, P.O - Gurua, P.S - Gurua, Dist - Gaya at present New Karimganj, New colony, P.O - Karimganj, P.S- Civil line, Dist- Gaya declare vide affidavit no. VIII/01 DTD. 05.06.23 that Raiyan Suhail is my son who is passed Xth CBSE board exams. In 2022 from Nazareth Academy, Gaya. His roll no. is 22139206, Regd no. P122/65002/0028, school no. 65002. In his matriculation certificate my name is wrongly mentioned as Suhail Akhter Khan in father coloumn. While my correct name is Md. Suhail Akhtar khan and I will be known as Md. Suhail Akhtar khan for all purposes.

Md. Suhail Akhtar Khan.

सं0 797—मैं शांतनु (Shantanu) पिता राजीव शंकर, स्थायी पता—सरोज मेडिकल हॉल, सिविल लाइन पकड़ी आरा, पो0—आरा, थाना—आरा नवादा, जिला—भोजपुर, बिहार, पिन—802301 बयान करता हूं कि आधार—पैन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर मेरा नाम शांतनु दर्ज है। मैं अपने सभी कागजातों पर नाम शांतनु शंकर (Shantanu Shankar) दर्ज कराना चाहता हूं। (शपथ पत्र सं0 87014/1.8.2022)।

शांतनु (Shantanu).

सं0 798—मैं स्वपनिल (Swapnil) पिता राजीव शंकर, स्थायी पता—सरोज मेडिकल हॉल, सिविल लाइन पकड़ी आरा, पो0—आरा, थाना—आरा नवादा, जिला—भोजपुर, बिहार, पिन—802301 बयान करता हूं कि आधार—पैन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर मेरा नाम स्वपनिल दर्ज है। मैं अपने सभी कागजातों पर नाम स्वपनिल शंकर (Swapnil Shankar) दर्ज कराना चाहता हूं। (शपथ पत्र सं0 87016/1.8.2022)।

स्वपनिल (Swapnil).

सं0 799—मैं स्नेहिल (Snehil) पिता राजीव शंकर, स्थायी पता—सरोज मेडिकल हॉल, सिविल लाइन पकड़ी आरा, पो0—आरा, थाना—आरा नवादा, जिला—भोजपुर, बिहार, पिन—802301 बयान करता हूं कि आधार—पैन कार्ड व शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर मेरा नाम स्नेहिल दर्ज है। मैं अपने सभी कागजातों पर नाम स्नेहिल शंकर (Snehil Shankar) दर्ज कराना चाहता हूं। (शपथ पत्र सं0 87013/1.8.2022)।

स्नेहिल (Snehil).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रिता

बिहार गजट, 16—571+10-डी0टी0पी01

Website: <http://egazette.bih.nic.in>